



Date: 9<sup>th</sup> December, 2022

**Listing Department/ Department of Corporate Relations,  
The Bombay Stock Exchange Limited,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,  
Mumbai, Fax- 022-22722037/39/41/61/3121/22723719**

**Listing Deptt.**

**National Stock Exchange of India Limited,  
Exchange Plaza, C-1, Block G,  
Bandra- Kurla Complex, Bandra (East),  
Mumbai- 51, Fax- 022-26598237/38- 022-26598347/48**

**Stock Code: - At BSE- 532524; At NSE- PTC**

**SUB: Public Notice- Post-dispatch of 23<sup>rd</sup> AGM notice u/r 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.**

**REF: Information regarding 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM).**

This is in furtherance to our intimation letter dated December 7, 2022 regarding newspaper advertisement of publication of Notice of 23<sup>rd</sup> AGM, the Company has completed dispatching of electronic copies of AGM Notice & Annual Report for the FY 2021-22 by December 8, 2022 to all the members, whose email ids are registered with the company / depository participant(s). Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI Listing Regulations, we hereby enclose copies of the newspaper published in Business Standard (English & Hindi) both dated December 9, 2022, regarding completion of dispatch of AGM Notice & Annual Report.

The cuttings of notice, which has been published in Business Standard (English and Hindi Edition) are attached herewith.

Please take the same on your record.

Thanking you,

**For PTC India Limited**

**(Rajiv Maheshwari)  
Company Secretary  
FCS- 4998**

**PTC India Limited**

(Formerly known as Power Trading Corporation of India Limited)

CIN : L40105DL1999PLC099328

2nd Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place New Delhi - 110 066 Tel: 011- 41659500.41595100, 46484200, Fax: 011-41659144  
E-mail: info@ptcindia.com Website: www.ptcindia.com,

# Rail stocks may chug along until Budget

Book profit selectively, advise analysts

HARSHITA SINGH  
New Delhi, 8 December

The dream run in railway stocks may soon run out of steam, caution analysts. The rally, which has lasted nearly a year, may meet time-wise correction after the Union Budget announcements as investors begin scaling profits.

"There is going to be a build-up in expectations for the sector from the Union Budget, which is still two-odd months away. We expect the upmove to sustain with intermittent corrections until the time the Budget is announced. Some buying on every dip will likely take place and investors can book profits until then, if not already," said Deepak Jasani, head of retail research, IIDFC Securities, who prefers Rail Vikas Nigam (RVNL) and Itron International.

He added that the sector lacks institutional investor holding, which is typically needed to maintain higher price levels. Thus, time correction after Budget 2023-24 cannot be ruled out.

On the bourses, companies such as RVNL, Texmaco Rail & Engineering, Rail India Technical and Economic Service, Indian Railway Finance Corporation, Titagarh Wagons, Itron International, and RailTel Corporation of India have rallied as much as 123 per cent over the last year, driven by reasonable valuations, higher dividends, and the government's increasing capital expenditure (capex) push in recent years.

"The run-up in the sector came in the wake of attractive valuations, with most stocks trading below price-to-earnings multiples of 10 with firm dividend yields of 3-4 per cent. After a strong upturn in defence stocks, sector rotation to the railway has taken place on the back of government spending," said Apurva Sheth, head of market perspectives, Samco Securities.

The Indian Railways led the central government's capex announcements in 2022-23, accounting for 38 per cent of total projects in value terms.



Stock	Price* (in ₹)	Returns (%)
		6-month 1-year
Kernex Microsystems India	329	72.0 282.0
Titagarh Wagons	202	99.5 123.9
Texmaco Rail & Engineering	59	29.7 111.6
Rail Vikas Nigam	70	118.1 105.4
Bharat Electronics	106	29.2 50.9
Itron International	65	66.6 43.7
Indian Railway Finance Corp	33	55.5 42.5
RITES	371	51.6 37.3
Container Corp of India	771	23.1 21.2
RailTel Corp of India	133	34.9 12.6
BEML	1,554	45.2
IRCTC	717	9.6 -12.9

\*As on December 7 Source: Bloomberg; Compiled by BS Research Bureau

This was similar to 2019-20, when the national transporter had accounted for 43 per cent of the Centre's capex outlay, said analysts at Nirmal Bang in a recent note.

In the upcoming Budget, the Railways has reportedly sought gross budgetary support of ₹1.5-1.8 trillion over ₹1.37 trillion earmarked during Budget 2022-23. The allocation could be the highest ever, with the likely announcement of around 300-400 new Vande Bharat trains, according to reports.

A part of the said allocation could also be used towards laying new lines, given the Railways' ambitious plan to lay about 100,000 kilometres of new track over the

next 20-25 years. These plans will generate significant orders for railway suppliers and engineering, procurement, and construction companies, said analysts.

Sheth said that the charm of railway public sector undertaking (PSU) stocks is slowly fading, and these could tumble from here on.

"A correction is bound to follow after such a sharp run in PSU railway stocks. These could see consolidation in the near term. However, private sector stocks such as Titagarh Wagons and Texmaco Rail are seeing fresh breakouts on the charts. These could lead the sectoral upmove as PSU stocks cool off," he added.

# Maximise reward points by using right card for each spend

BINDISHA SARANG

While the number of credit card users is growing, not all of them are savvy at maximising the benefits from the reward points they earn. Used smartly, these points can help you meet your regular expenses or purchase a product you have coveted for a long time.

Sanjeev Moghe, president & head, cards & payments, Axis says, "Reward points are a fundamental driver of customer loyalty, specifically in the case of cards."

## Varied reward structures

Credit cards offer a variety of reward structures. Sachin Vasudeva, director & business head, Paisabazaar, says, "While most cards work on the reward points model, some offer cashback, air miles, or loyalty points with select brands."

Cardholders earn reward points at a pre-set rate. Gaurav Chopra, founder & chief executive officer (CEO), IndiaLends, says, "Credit card issuers could offer 1 point for ₹50 to ₹100. The conversion rate varies from one card to another. Sometimes, the reward points can be a percentage of the amount spent, and can range from 0.2 to 2 per cent."

Cardholders can redeem these points to avail themselves of vouchers or other products from their bank's rewards catalogue.

Air miles and loyalty points work similarly but their redemption options tend to be limited. Air miles can be redeemed upon booking flight tickets, while loyalty points can be redeemed only with the associated brand. Cashback means the consumer earns a certain amount at a pre-set rate, which is credited into the card account. Chopra says, "First-time users prefer cashback cards as their benefits are the easiest to understand."

Co-branded cards can help maximise benefits on recurring expenses. Chopra says, "To cite one example, the Axis Flipkart Credit Card offers a good value proposition to anyone who shops regularly at Flipkart. An airline co-branded card is perfect for



a frequent flier."

## Rate of earning varies...

Credit cards have a base reward rate that applies to all transactions. In addition, they allow customers to earn reward points at an accelerated rate on select categories. For example, the SBI

SimplyCLICK Credit Card offers 1 reward point per ₹100 spent on retail transactions. But if you spend the same amount on online purchases, you get five times more reward points.

## ...So does the value of each point

The value of each reward point can also vary, depending on the type of card and the redemption mode. For example, when you redeem the points on the HDFC Diners Club Privilege Credit Card, the value of 1 reward point will be ₹0.50 for booking flights or hotels via SmartBuy, ₹0.35 for purchasing vouchers or products through the rewards catalogue, and ₹0.20 if you convert the points into cash. Vasudeva says, "Choose the redemption option that gives the highest value."

## Things to be mindful of

Credit card reward points must be used

## THINGS TO KNOW ABOUT REDEEMING REWARD POINTS

- Reward points can be redeemed – both online and off-line
- They can be redeemed at the reward store for instant digital vouchers and merchandise
- They can also be redeemed with in-store partners (at point of sale)
- Points and miles can be redeemed at websites to book flights, hotels, tickets and experiences
- The cashback amount offered by eligible cards can be used to pay the outstanding amount on a credit card
- Some cards also allow reward points to be used to pay the card's annual fee

on time. Vasudeva says, "They usually have an expiry date, so redeem on time."

Spending a threshold amount can earn you a sign-up bonus. Adhil Shetty, CEO, Bankbazaar, says, "Plan your spending such that you meet this requirement without going overboard or getting into debt."

Use your credit card on everything that doesn't charge a fee. Earn more reward points by linking subscriptions to credit cards. Paying school fees or rent with the card may trigger a fee. Shetty says, "Using the card may not be worthwhile where the fee exceeds the rewards." The reward points may not at times cover the full cost of an item. Raj Khosla, founder and managing director, MyMoneyMantra.com says, "Some rewards come with part payment or own spending conditions, especially air tickets, where you have to pay say 30 per cent and redeem the miles for 70 per cent."

Keep an eye out for additional, temporary bonus offers. Some cards offer bonus points to encourage spending during the holiday season. Crossing certain thresholds on some cards can earn you additional points.

Choose the right card for the right spending category. For example, a card that offers extra reward points on groceries should be used primarily to buy groceries.

Form No. 14 (See Regulation 12(2))  
Notice Under Rule 2 of Second Schedule  
To The Income Tax Act 1961  
**DEBITS RECOVERY TRIBUNAL-JAIPUR**  
First Floor, Sudharma II, Lal Kothas  
Shreeganga Centre, Tonk Road, Jaipur-302015  
Dispatch No. DRT/JPR/0171 Date: 08.12.22  
R.C. No. 07/2022 Next Date: 17/01/2023  
**Punjab National Bank** Certificate Holder  
Versus  
**M/s BRC Fashion Pvt. Ltd.** Certificate Debtor  
**DEMAND NOTICE**  
To, 1. M/S. BRC FASHION PVT. LTD., Anj No. 7867/3, Village Station Nagar, Tehsil Mandial, District Bhiwara, Rajasthan, through its Director, Mahaveer Nagar-1, Near Durga Mandir, Durgapura, Jaipur, Rajasthan.  
2. SMT. SURAJ CHANDAK, W/o. Shri Kalish Chandak, R/o. House No. G-283, Azad Nagar, Bhiwara (Rajasthan), Also at-House No. 5, "Surana House" New Housing Board, Shastri Nagar, Bhiwara, Rajasthan, Near At-350, Basement, Durgapura, Jaipur, Rajasthan.  
3. SMT. TARUNA CHANDAK, W/o. Shri Shiv Ratan Chandak, R/o. House No. G-283, Azad Nagar, Bhiwara (Rajasthan), Also at-House No. 5, "Surana House" New Housing Board, Shastri Nagar, Bhiwara, Rajasthan, Near At-350, Basement, Durgapura, Jaipur, Rajasthan.  
4. KAILASH CHANDRA CHANDAK, S/o. Shri Bhograj Chandak, R/o. House No. G-283, Azad Nagar, Bhiwara (Rajasthan), Also at House No. 5, "Surana House" New Housing Board, Shastri Nagar, Bhiwara, Rajasthan, Near At-350, Basement, Durgapura, Jaipur, Rajasthan. Also at-605, Unique Sangh Apartment, Mahaveer Nagar, Tonk Road, Jaipur, Rajasthan.

**Bank of India** Chartered Bank  
17, Tolstoy Marg, New Delhi - 110001 Telephone - 011-23351091/43551091  
CIN: U51900MH1994PLC0278303 Website - www.bankofindia.com

**Corrigendum**  
Sale Notice published on 08-12-2022 in Business Standard (English and Hindi)  
The date of E-AUCTION/Sale is amended and to be read as 30.12.2022 instead of 25.12.2022. The date of Auction sale is amended due to 25.12.2022 being a Closed Holiday. Accordingly, Last date of submission of EMD is also revised and to be read as 29.12.2022 instead of 24.12.2022. Other details remain same.  
Date-09.12.2022 Authorized Officer, Bank of India

**Indian Overseas Bank** (A Government of India Enterprise)  
Regional Office : 595, Indira Nagar, Dehradun-248006  
Tele-0135-2523700 e-mail-2952security@ioibnet.co.in

**TENDER FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE OF NVR BASED CCTV SYSTEM**  
Offers are invited from Individuals/Reputed Companies to Purchase & Installation and Commissioning of NVR Based CCTV System for 33 Branches of Dehradun Region as per our Bank's specifications. The offer as above should be submitted at the above address by 30.12.2022 4:00 pm. You may log on to our website www.ioib.in (under tender section) for technical & financial bid formats and complete tender details. The Bank reserves the right to accept/reject the offer (s) without assigning any reason.  
Date - 08.12.2022 Place: Dehradun Senior Regional Manager

**TATA POWER** (Corporate Contracts Department)  
The Tata Power Company Limited, Smart Center of Procurement Excellence,  
2<sup>nd</sup> Floor, Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Sahar Airport Road,  
Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India  
(Board Line: 022-67173917) CIN: L28920MH1919PLC000567

**NOTICE INVITING TENDER (NIT)**  
The Tata Power Company Limited invites tender from eligible vendors for the following tender packages (Two-part Bidding) in Mumbai.  
Design, Manufacturing, Supply, Installation, Testing and Commissioning of 250MVA 220/110/22KV ICT at Salsette receiving station, Mumbai (Package Reference: CC23NP053). Interested bidders to submit Tender Fee and Authorization Letter upto Friday, 16<sup>th</sup> December 2022, 1500 Hrs.  
For detailed NIT, please visit Tender section on website <https://www.tatapower.com>. Also, all future corrigendums (if any), to the above tenders will be informed on Tender section on website <https://www.tatapower.com> only.

**DETAILS OF AMOUNT IN THE RECOVERY CERTIFICATE DUE AGAINST YOU**

1. Recovery Certificate Amount	Rs. 96,49,062.61
2. Cost of Suit	Rs. 1,41,087.0
3. Interest from 05.10.2019 to 16.08.2022 @ 10% p.a.	Rs. 58,34,725.24
4. Less amount recovered (before after RC issued (if any))	Rs. 0.00
5. Total Dues	Rs.1,46,25,874.85

Recovery Officer/  
Debt Recovery Tribunal, Jaipur

**STCI FINANCE LIMITED** (Formerly, Securities Trading Corporation of India Limited)  
401 & 412, 4th Floor, Prakashdeep Building,  
7, Tolstoy Marg, New Delhi - 110001 Telephone - 011-23351091/43551091  
CIN: U51900MH1994PLC0278303 Website - www.stcifinance.com

**APPENDIX - I/VA PUBLIC NOTICE CUM E-AUCTION NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY (Rules 8 & 9 of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)**

E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("SARFAESI Act, 2002"), read with Rules 8 and 9 of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules")

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrowers/Mortgagors/Guarantors that the below described immovable residential property mortgaged/charged to the Secured Creditor i.e. STCI Finance Limited, the physical possession of which has been taken on 02.08.2019 by the Authorised Officer of the Secured Creditor i.e. STCI Finance Limited, will be sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" and "WITHOUT RECOURSE BASIS", for recovery of an aggregate amount of Rs. 295,48,88,426 (Rupees Two Hundred and Ninety Five Crore Forty Eight Lakh Eighty Eight Thousand Four Hundred and Twenty Six Only) as on 30.11.2022, the breakup of which is given herein below:

S. No	Particulars	Account I	Account II
1.	Name of the Borrowers	Cedar Infonet Pvt. Ltd.	Lt. Col. (Retd.) H. S. Bedi and Mrs. Maninder Kaur Bedi
2.	Amount Outstanding	As on 30.11.2022 (In Rs.)	As on 30.11.2022 (In Rs.)
	Principal	50,00,00,000	15,00,00,000
	Interest (including additional interest)	179,34,13,150	51,14,75,276
	Total	229,34,13,150	66,14,75,276

Along with further interest/additional interest, cost and charges at contractual rates till the date of payment and/or realization and together with all costs, charges and expenses or any incidental charges till the date of payment and/or realization due to the Secured Creditor from Cedar Infonet Pvt. Ltd. (Borrower), Lt. Col. (Retd.) H. S. Bedi (Borrower/Mortgagor/Guarantor) and Mrs. Maninder Kaur Bedi (Borrower/Mortgagor/Guarantor).

The Secured Creditor i.e. STCI Finance Limited in exercise of its powers conferred under Section 13(4) of the SARFAESI Act, 2002 read with Rules made thereunder, has decided to sell by way of e-auction, the immovable property as mentioned herein below (hereinafter referred to as "the Secured Asset/said property").

**DESCRIPTION OF THE SECURED ASSET:**  
All that piece and parcel of vacant land measuring 1008.00 sq. yds. bearing plot number 5 situated and/or located at Paschini Marg, Vasant Vihar, New Delhi - 110057, situated within the jurisdiction of the Sub-Registrar Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 110022, bounded as under:  
On North by: Service Lane  
On South by: 80' Wide Road  
On East by: Plot No. 4  
On West by: Plot No. 6  
together with the buildings and structures constructed to be constructed thereon, together with all the fixtures and fittings, both present and future, whether attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth including all rights, liberties, privileges, rights, easements, appurtenances and advantages whatsoever to the said hereditaments appertaining to or held, used and occupied with the same or enjoyed or reputed as part thereof or appurtenant thereto.

**SECURED ASSET BELONGING TO:**  
Lt. Col. (Retd.) H. S. Bedi and Mrs. Maninder Kaur Bedi (Joint Owners).

**THE DETAILS OF THE E-AUCTION ARE AS FOLLOWS:**

Reserve Price (Rs. crore)	Earned Money Deposit (EMD) (Rs. crore)	Increment in Bidding Process (Rs. crore)	Inspection Date and Time of the Secured Asset	Last Date of Submission of Bid Application Form	Date & time of e-auction
61	6.1	0.10	09.01.2023 (from 11:00A.M. to 5:00 P.M.)	10.01.2023 (from 11:00 A.M. to 5:00 P.M.)	12.01.2023 (from 11:00 A.M. to 12:00 noon)

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link for e-auction provided in STCI Finance Limited, Secured Creditor's, website i.e. <https://www.stcifinance.com> and portal of M/s e-Procurement Technologies Ltd. (Service Provider) <https://sarfaesi.auctiontiger.net>.

**ENCUMBRANCE:** HDFC Ltd. is the first charge holder of the Secured Asset and is having total outstanding dues of Rs.28,02,122 (Rupees Twenty Eight Lakh Two Thousand One Hundred and Twenty Two Only) as on 30.11.2022.

**STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE TO THE BORROWERS/MORTGAGORS/GUARANTORS UNDER THE SARFAESI ACT, 2002**  
This notice is also a mandatory notice of 15 (fifteen) days to the Borrowers/Mortgagors/Guarantors of the above loan accounts, under the provisions of SARFAESI Act, 2002 read with Rules 8 and 9 of the Rules, informing them about holding auction/sale on the above referred date and time with the advice to redeem the Secured Asset if so desired by them, by paying the outstanding dues as mentioned hereinabove along with interest, cost & expenses, as per the rules/conditions prescribed under the SARFAESI Act, 2002 and its various amendments. In case of default in payment, the Secured Asset shall, at the discretion of the Authorised Officer/Secured Creditor, be sold through any of the modes as prescribed under Rule 8(5) of the Rules.

Sd/-  
Authorized Officer  
STCI Finance Limited  
Secured Creditor  
Date: 09.12.2022  
Place: New Delhi  
Email - [auction@stcifinance.com](mailto:auction@stcifinance.com)  
Telephone - 011 - 23351091/43551091

**PTC India Limited**  
CIN: L40105DL1999PLC099328  
Regd. Office: 2<sup>nd</sup> Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 110 066  
Website: Tel: 011- 41659500, 41595100, 46484200. Fax: 011-41659144  
E-mail: [info@ptcindia.com](mailto:info@ptcindia.com) Website: [www.ptcindia.com](http://www.ptcindia.com)

**NOTICE OF 23<sup>rd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the members of PTC India Limited ("PTC Company") will be held on Friday, 30<sup>th</sup> day of December at 03:00 pm through Video Conferencing ("VC"), to transact the businesses as set out in the AGM Notice. AGM is scheduled in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with General Circular Nos. 14/2020 (dated 8<sup>th</sup> April 2020), 17/2020 (13<sup>th</sup> April 2020), 20/2020 (dated 5<sup>th</sup> May 2020), 02/2021 (dated 13<sup>th</sup> January 2021), 19/2021 (dated 8<sup>th</sup> December 2021), 21/2021 (dated 14<sup>th</sup> December 2021) and 02/2022 (dated 5<sup>th</sup> May 2022) respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12<sup>th</sup> May 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 16<sup>th</sup> January 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13<sup>th</sup> May 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), for conducting AGM without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with the said MCA Circulars read with the SEBI Circulars, electronic copies of the AGM Notice and Annual Report for the financial year ended on 31<sup>st</sup> March, 2022 have been sent by 8<sup>th</sup> December, 2022 to all the members whose email IDs are registered with the Company's Depository participant(s) as on 26<sup>th</sup> November, 2022. Please note that the requirement of sending physical copy of the AGM Notice and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circular. However, a member may request the hard copies of the same by writing us an email at [cs@ptcindia.com](mailto:cs@ptcindia.com). The AGM Notice and the Annual Report is also available on the website of the Company <https://www.ptcindia.com/> and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at <https://www.evoting.nsdl.com>.

Members, who are holding shares in physical/electronic form and whose e-mail addresses are not registered with the Company their respective Depository Participant(s), are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending a scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with a self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving the Notice of AGM by email to [cs@ptcindia.com](mailto:cs@ptcindia.com). Members holding shares in demat form can update their e-mail addresses with their Depository Participant(s). Post-registration of the email, the member would get a soft copy of the notice and annual report along with the User ID and Password to enable e-voting.

Further, members holding shares in physical form are requested to update their KYC and other relevant details with the Company Registrar and Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd. at [admin@mcsdtd.com](mailto:admin@mcsdtd.com), in compliance to the SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/2021/855 dated 3<sup>rd</sup> November, 2021 and SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/2021/857 dated 14<sup>th</sup> December, 2021 (as amended from time to time).

The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM and join the AGM through VC.

The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) to provide e-voting platform to members. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as e-voting on the day of the AGM will be provided by NSDL.

The members holding shares either in physical form or in dematerialized form: as on the cut-off date i.e. 23<sup>rd</sup> December, 2022 may cast their vote electronically on the resolutions as set out in the Notice of AGM through electronic voting systems of NSDL.

In case of any queries, including issues and concerns related to remote e-voting and voting at AGM you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 2244 30 or send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).

**All the members are informed that:**

- The businesses as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting shall commence on Tuesday, 27<sup>th</sup> December, 2022 at 9.00 a.m. (IST);
- The remote e-voting shall end on Thursday, 29<sup>th</sup> December, 2022 at 5.00 p.m. (IST);
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 23<sup>rd</sup> December, 2022 and a person who is not a Member as on the cut-off date may treat this Notice for information purposes only;
- Person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after sending of the Notice of AGM and holding shares and eligible to vote, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the AGM. If such a person is already registered with NSDL for e-voting, existing user ID and password can be used for casting vote;
- Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by the NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM;
- Shri Ashish Kapoor, Practicing Company Secretary (CP No. 7504) has been appointed as the Scrutinizer for conducting the entire voting process at 23<sup>rd</sup> AGM in a fair and transparent manner in accordance with the applicable provisions of the Act & Rules;
- The Scrutinizer will submit its final report after the conclusion of voting at the 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting but not later than 2 (two) working days from the closure of AGM; and
- The Chairman of the meeting or any other person authorized by him in that behalf shall announce the result of voting on the resolutions taken up at the 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting simultaneously upon submission of final report by the Scrutinizer. The results along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the Company's website at <https://www.ptcindia.com/> and simultaneously be communicated to the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange of India (NSE) and NSDL and be displayed at the registered office of the Company.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please note that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be closed from December 17, 2022 to December 30, 2022 (both days inclusive) for determining the names of members eligible for final dividend on Equity Shares for the financial year 2021-22. If declared at the AGM.

By Order of the Board  
For PTC India Limited  
Sd/-  
Rajiv Maheshwari  
Company Secretary

Date: 09/12/2022  
Place : New Delhi

**JJ - 31 GOVERNMENT OF ODISHA COMMERCE & TRANSPORT (TRANSPORT) DEPARTMENT SHORT NOTICE INVITING TENDER "CHARTER SERVICES BETWEEN BHUBANESWAR & ROURKELA FOR TEAMS & OFFICIALS OF FIH ODISHA HOCKEY MEN'S WORLD CUP 2023"**

Government of Odisha, Commerce & Transport (Transport) Department desires to hire twin engine turbo prop ATR-72 Aircraft(s) complying to all safety norms as prescribed by the DGCA from time to time. The charter service will be required for movement of teams & officials of FIH Odisha Hockey Men's World Cup 2023 between Bhubaneswar & Rourkela from 07.01.2023 till 29.01.2023.


Eligible and interested scheduled Airline operators may download the Short Notice Inviting Tender (SNIT) document which contains the details of the requirement from the following website of Government of Odisha and submit their offer,  
<https://tendersodisha.gov.in/nicgep/app> & <https://ct.odisha.gov.in/tenders>.

Proposals complete in all respect should reach the undersigned latest by **05:00 PM on 15.12.2022**. Bids received after the above deadline shall be summarily rejected. The authority reserves the right to reject any or all the proposals without assigning any reason thereof.

Sd/-  
Additional Secretary to Govt. & Director of Aviation,  
Commerce & Transport (Transport) Department Government of Odisha  
OIPR No - 38001/11/0016/22-23




सन फार्मा



यूएसएफडीए ने गुजरात के हलोल संयंत्र के संबंध में आयात अल्टर जारी किया... ₹ 1,017.3... -3.6%

ट्रेंट




3.22 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए टीडीपीएल के साथ समझौता किया... ₹ 1,462.9... -0.3%

जेएसडब्ल्यू स्टील




कच्चा इस्थित उत्पादन सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़ा... ₹ 738.5... 0.9%

ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया



पारादीप बंदरगाह पर नुमातीगढ़ रिफाइनरी से ठेका मिला... ₹ 407.2... 2.8%

ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज



पुणे में नई परियोजना की स्थापना के लिए निदेशक मंडल से मिली मंजूरी... ₹ 1,846.4... 4.5%

संक्षेप में

अशनीर प्रोवर और परिवार को समन

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारत के पूर्व सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक (एमडी) अशनीर प्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और उनके परिवार के तीन अन्य सदस्यों को भारत के घन की कथित हेराफेरी को लेकर तलब किया। सूत्रों ने बताया कि कंपनी द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर न्यायालय ने तलब किया है।

लैंडमार्क कार्स का आईपीओ 13 दिसंबर को

वाहन 'डीलरशिप' कारोबार से जुड़ी लैंडमार्क कार्स लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) आवेदन के लिये 13 दिसंबर को खुलेगा। कंपनी ने 552 करोड़ रुपये की शुरुआती शेयर बिक्री के लिए मुख्य दायरा 481-506 रुपये प्रति शेयर तय किया है।

Advertisement for Container Corporation of India Ltd. (CCI) with details about its IPO and contact information.

Advertisement for PTC India featuring the PTC logo and contact details for their services.

पीटीसी इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: इंदिरा पार्क, एनबीसीडी टावर-1, गौरीजी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110066. फोन: 011-41659500, 41599100, 46484200. ई-मेल: info@ptcindia.com

23वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और रिपोर्ट ई-वोटिंग की जानकारी. एनडीएसडी के सदस्यों को सूचना दी जाती है कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी/कम्पनी) के सदस्यों को 23वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 30 दिसंबर, 2022 को...

इसके अतिरिक्त, सदस्यगण, जिनके शेयर खाते में हैं उनसे सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है कि वे अपने शेयरों को एजीएम पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं।

कम्पनी ने सदस्यों को ई-वोटिंग के माध्यम से अपने शेयरों को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं।

- 1. एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यक्तियों का निम्नलिखित सूचीबद्ध सदस्यों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा... 2. रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से 22 दिसंबर, 2022 को सुबह 08.00 बजे (आईएसटी) प्रेषित होगी...

दिनांक: 09.12.2022, स्थान: नई दिल्ली, कम्पनी सचिव

एथर एनर्जी, ग्रीन्स कॉटन भी सायम में

सुरजीत दास गुप्ता नई दिल्ली, 8 दिसंबर. प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माता एथर एनर्जी और ग्रीन्स कॉटन, जो एम्पीयर ब्रांड ई-स्कूटर की मालिक हैं, आईसीडी (तेल-गैस चालित इंजन) वाहन निर्माताओं के प्रवेश वाले वाहन संगठन - सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (सायम) में शामिल हैं।

ई-दोपहिया निर्माता चाहें वक्त स्थानीयकरण के मानदंडों की समयसीमा में 12 से 18 महीने की राहत की दरकार

सुरजीत दास गुप्ता नई दिल्ली, 8 दिसंबर. इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं का संघ - सोसाइटी ऑफ मैनुफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक वाहनों (एसएमईवी) सरकार से स्थानीयकरण आवश्यकता को पूरा करने की समयसीमा 12 से 18 महीने तक और बढ़ाने की गुजारिश कर रहा है।

संघ में भी विचार कर सकते हैं। विभिन्न विश्लेषणों से पता चलता है कि आईसीडी (गैस या तेल से चलने वाले इंजन) के मुकाबले ई2डब्ल्यू की रूपांतरण दर लगभग 20 प्रतिशत (वर्तमान में यह दर दोपहिया वाहनों के लिए 5 प्रतिशत है) तक पहुंचने के बाद ई2डब्ल्यू के वृद्धि पथ को हल्की सस्मिडी के साथ बनाए रखा जा सकता है।

एथर इंडिया अपने बोंडिंग 777 और 787 विमानों के केबिनों की मरम्मत के लिए 40 करोड़ डॉलर खर्च करेगी

एथर इंडिया अपने बोंडिंग 777 और 787 विमानों के केबिनों की मरम्मत के लिए 40 करोड़ डॉलर खर्च करेगी तथा सभी मध्य और लंबी दूरी के मार्गों पर प्रीमियम इकोनॉमी सेवा शुरू करेगी।

एयर इंडिया कर रही 40 करोड़ डॉलर से बोंडिंग में सुधार

एथर इंडिया अपने बोंडिंग 777 और 787 विमानों के केबिनों की मरम्मत के लिए 40 करोड़ डॉलर खर्च करेगी तथा सभी मध्य और लंबी दूरी के मार्गों पर प्रीमियम इकोनॉमी सेवा शुरू करेगी।

Table with 4 columns: BAJAJ FINSERV, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, and two columns for loan details including interest rates and terms.

ई-नौलामी बिक्री सूचना

Table for e-auction notice with columns for item details, location, and contact information for Bank of Maharashtra.